

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम:	प्रमाण पत्र	कक्षा: बीकॉम	वर्ष: प्रथम वर्ष
सत्र: 2021-22			
विषय: व्यावसायिक गणित			
1	पाठ्यक्रम का कोड	C1-COMB1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	व्यावसायिक गणित	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर	
4	पूर्वपिक्षा (यदि कोई हो)	सभी के लिए उपलब्ध (Open For all)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	व्यावसायिक गणित विषय के अध्ययन से <ul style="list-style-type: none"> • विद्यार्थियों मदिनप्रतिदिन के गणना कार्यों में एवं व्यवसायिक गणना कार्यों में दक्षता प्राप्त होगी, • गणितीय सोच तथा तर्कशक्ति विकसित होगी जिससे वे तार्किक परिणाम निकालकर त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे, • विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे, • आगामी वर्षों में व्यावसायिक सांख्यिकी, लागत लेखांकन, वित्तीय प्रबंध, आयकर, जैसे विषयों के संख्यात्मक प्रश्नों के अध्ययन व उन्हें हल करने में आसानी होगी. 	
6	क्रेडिट मान	6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): 3			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	भारतीय ज्ञान परम्परा में वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास वैदिक गणित के माध्यम से , संख्याओं के जोड़, गुणावर्ग एवं वर्गमूल की त्वरित गणना की विधियाँ एवं ,भाग, अभ्यास,योगांक से उत्तर के त्वरित सत्यापन की विधि	15	
2	बीजगणित में चिन्हों संबंधी नियम एवं अभ्यास, गणना संबंधी नियम एवं अभूBODMASयुगपत समीकरण: अर्थ विशेषताएं प्रकार एवं गणनाएं हैं इबारती प्रश्न सहित	15	
3	घातांक के सिद्धांत(प्रारंभिक ज्ञान), लघुगणक एवं प्रतिलघुगणकसिद्धांत एवं गणनाएं, प्रतिशत	15	
4	अनुपात, समानुपात, अपहार बद्ध, दलाली	15	
5	कमीशन, औसत, लाभ एवं हानि.	15	
6	साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज	15	
सार बिंदु (की बर्ड)/टिग: वैदिक गणित, युगपद समीकरण , अनुपात, ब्याज, औसत, कमीशन			

(Handwritten signature)

भाग स- अनुशासित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशासित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

स.क्र.	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	प्रकाशन स्थल
1.	गुप्ता डआलोक	व्यावसायिक गणित		एसवीपीडी पब्लिकेशन आगरा
2.	मंगल डॉरमेश	व्यावसायिक गणित		युनिवर्सल पब्लिकेशन इंदौर
3.	अग्रवाल डॉमहेस	व्यावसायिक गणित		रामप्रसाद एंड संस भोपाल
4.	Magar Dr.Abhilasha	Business Mathematics		Himalaya publication Mumbai
5.	Sancheti & Kapoor Delhi	Business Mathematics		Sultan chand and sons New
6.	Sharma J.K. Delhi	Business Mathematics		IK International pvt.Ltd. New

2. अनुशासित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

1. <https://www.gkpad.com/2020/09/bcom-books/>
2. <http://www.ignouhelp.in/ignou-bcoc-134-study-material/>
3. <https://icmai.in/upload/Students/Syllabus-2012/Study Material New/Foundation-Paper4-Revised.pdf>
4. <https://www.youtube.com/channel/UckYHuQs69wk16EuxpljDw-w>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=kxpwmzUcs&t=816s>
6. https://www.youtube.com/results?search_query=virtual+class+mp+higher+education
7. <http://www.himpub.com/documents/Chapter1756.pdf>

अनुशासित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

भाग द - अनुशासित मूल्यांकन विधियां:

अनुशासित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट (वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय)	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75

कोई टिप्पणी/सुझाव: विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं कम से कम तीन लघु प्रश्न आंकिक पूछे जाना चाहिए.

Pavan Mishra


(Prof. Pavan Mishra)

Part A Introduction

Programme : Certificate Class:B.COM.1 st Year session 2021-22		
Subject: Commerce		
1	Course Code	C1-COMB1T
2	Course Title	Business Mathematics
3	Course Type	Core 1 (PAPER 2)
4	Pre-requisite	Not required open for all
5	Course Learning Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> To apply basic terms of integration in solving practical problems field of as of business. To explain basic methods of business calculus, types and methods of interest account and their basic applications in practice. To solve problems in the areas of business calculus, simple and compound interest account, use of compound interest account, loan and consumer credit. To discuss effects of various types and methods of interest account. connect acquired knowledge and skills with practical problems in economic practice.
6	Credit Value	6
7	Total Marks	Max marks : 25+75 Minimum Passing Marks 33

Part B: content of the course

Total No. of Lectures (in hours per week)- 3, Total lectures: 90		
unit	topic	No. of lectures
1	Brief history of Vedic mathematics in Indian knowledge tradition, methods and practice of quick calculation of addition, multiplication, division, square and square root of numbers through Vedic mathematics, method of quick verification of answers from Digit Sum .	10
2	Rules for sign in Algebra and practice, Rules for calculation (BODMAS) and practice, Simultaneous Equations- Meaning, Characteristic, types, calculations (with word problems)	15
3	Theory of indices (preliminary knowledge only formulae), Logarithms and Antilogarithms-principles and calculations, Percentage	15
4	Ratio, Proportion, Discount, Brokerage	20
5	Commission, Average, profit and loss	15
6	Simple interest, Compound interest	15
Keywords/Tags: Vedic mathematics, Logarithms, Simultaneous Equations, Ratio, Proportion, Discount, Brokerage, Commission, Average, interest		


 (Prof. Pavan Mishra)

Part C learning Resources

1. Magar Dr. Abhilasha Business Mathematics Himalaya publication Mumbai
2. Sancheti & Kapoor Business Mathematics Sultan chand and sons New Delhi
3. Sharma J.K. Business Mathematics IK International Pvt. Ltd. New Delhi
4. Kumar Mrityunjay Business Mathematics S. Chand Publishing New Delhi
5. Agrawal Dr. Mahesh Business Mathematics Ramprasad and sons Bhopal
6. Gourav Tekriwal Maths Sutra Penguin Books Gurgaon

Suggestive digital platforms, web links:

1. <https://www.gkpad.com/2020/09/bcom-books/>
2. <http://www.ignouhelp.in/ignou-bcoc-134-study-material/>
3. https://icmai.in/upload/Students/Syllabus-2012/Study_Material_New/Foundation-Paper4-Revised.pdf
4. <https://www.youtube.com/channel/UCkYHuQs69wk16EuxpLjDw-w>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=-kxpwImzUcs&t=816s>
6. https://www.youtube.com/results?search_query=virtual+class+mp+higher+education
7. <http://www.himpub.com/documents/Chapter1756.pdf>

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 marks University Exam (UE) 75 marks

Internal Assessment :	Class Test (objective type or descriptive)	15
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25	Assignment/Presentation	10
External Assessment :	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09
University Exam Section: 75	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total
Time : 02.00 Hours		75

Pavan Mishra
(Prof. Pavan Mishra)

PartA:Introduction

Program: CERTIFICATE		Class : UG	Year: I year	session :2021-2022
Subject:Computer Application				
1.	Course Code	SI-COAPIG		
2.	Course Title	Computer Fundamentals		
3.	Course Type	Elective		
4.	Pre-requisite (If any)	-		
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	<p>On the completion of this course student will be able–</p> <ul style="list-style-type: none"> • To understand the fundamentals of computer • To use computer in his daily life as well as can do assigned official work with ease. • Troubleshoot, issues related to working with computer and internet • To communicate through internet as well as can use IT for day to day work 		
6.	Credit Value	4		
7.	Total Marks	Max.Marks:25+75	Min.Passing Marks:33	

**PartB:Content Of the Course
Computer Fundamentals**


Total No. of Lectures =60(2 hours/lectures per week):2-0-0

Unit	Topics	No. of Lectures
I	<p>Knowing computer: What is Computer, Basic Applications of Computer; Components of Computer System, Modern Central Processing Unit (CPU), Video Display Unit, Keyboard and Mouse, Optical Storage Devices, Basics of Hard Drive, Concepts of Hardware and Software; Concept of Computing, Data and Information; Applications of Information Electronics and Communication Technology; Connecting keyboard, mouse, monitor and printer to CPU and checking power supply.</p> <p>Computer software & its types: System software, Application software. Types of operating systems, Role of operating system, Utility programs, Packages, Communication software, commonly used application software</p>	12
II	<p>Operating Computer using GUI Based Operating System: What is an Operating System; Basics of Popular Operating Systems; The User Interface, Basics of O.S Setup; Common utilities.</p> <p>MS Windows Operating System: Definition and functions, basic components of Windows. Icons. Desktop, Taskbar, Notification Area. Files and folders, Start menu operations, my computer, network neighbourhood, recycle-bin, windows explorer, creating copying, moving and deleting files, setting wall paper, changing the mouse pointer, paint, notepad, Setting date and time, screen saver, and appearance. Using Mouse; Using right Button of the Mouse and Moving Icons on the screen, Use of Common Icons, Status Bar, Using Menu and Menu-selection, Running an Application, Viewing of File, Folders and Directories, Creating and Renaming of</p>	12


Signature
28/13/2022

	files and folders, Opening and closing of different Windows; Using help; Creating Short cuts, Using Windows accessories.	
III	MS Word: Introduction, Windows 2007 Interface, Customizing the Word Application, Document Views, Creating & Editing Document. Selecting, Deleting, Replacing Text, Copying text to another file. Insert, Formatting text and paragraph, Using the Font, Dialog Box, Paragraph Formatting using Bullets and Numbering in paragraphs, Checking Spelling, Line spacing, Margins, Space before and after paragraph. Basic Formatting in MS Word 2007, Advanced Formatting, Navigating through a Word Document, Performing a Mail Merge, A Quick Look at Macros, Printing Documents, Print Preview Excel 2007: Introduction, Workbook, Worksheet, Formatting in excel MS PowerPoint: Introduction, Creating a Presentation	12
IV	Introduction to Internet, WWW and Web Browsers: Basic of Computer networks; LAN, WAN; Concept of Internet; Applications of Internet; connecting to internet; What is ISP; Knowing the Internet; Basics of internet connectivity related troubleshooting, Web Browsing softwares, Search Engines; Understanding URL; Domain name; IP Address; Using e-governance website Basics of electronic mail; Getting an email account; Sending and receiving emails; Accessing sent emails; Using Emails; Document collaboration; Instant Messaging; Netiquettes (Internet etiquette).	12
V	Useful Google tools such as drive, sheet, doc, meet, etc Firewall, Computer Virus and Anti Virus Softwares, Internet Security & Privacy Basics of Electronic Data Interchange (EDI) and Electronic Payment System (EPS), Types of Payment System: Digital Cash, Electronic Cheque, Smart Card, Introduction to Digital Signature and Digital Certificates	12

24/07/2022
28/3/2022


(DR D N GOSWAMI)

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा :बीकॉम	वर्ष: प्रथम वर्ष	सत्र: 2021-22
विषय: वाणिज्य -व्यावसायिक अर्थशास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	C1-COMC1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	इलेक्टिव	
4	पूर्वपिक्षा (यदि कोई हो)	सभी के लिए उपलब्ध (Open For all)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	<p>व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से विद्यार्थीगण</p> <ul style="list-style-type: none"> आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप बाज़ार में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव से परिचित होंगे, मांग पूर्ति के सिद्धांत से कीमते एकाएक कम या अधिक क्यों हो जाते हैं ये ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे उत्पत्ति के समस्त साधनों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो उन्हें एक अच्छा उद्यमी बनाने पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता के ज्ञान के साथ इन स्थितियों में कीमत कैसे निर्धारित होती है ये भी जान सकेंगे। 	
6	क्रेडिट मान	6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): L: 3			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	भारत में अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौटिल्य के विशेष संदर्भ में, अर्थशास्त्र की परिभाषा व्यष्टिगत एवंसमाष्टिगत अर्थशास्त्र की अवधारणा आर्थिक अध्ययन की रीतियां अर्थशास्त्रके नियम एवं उनकी प्रकृति, अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्यायें	15	
2	मांग की लोच: मांग की लोच की अवधारणा एवं मांग की कीमत, आय एवं आडी लोच, औसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच, मांग की लोच का निर्धारण, मांग की मूल्य सापेक्षता का महत्व	15	
1	उत्पत्ति के साधन: भूमि, श्रम: श्रम विभाजन श्रम की कार्यकुशलता, पूंजी, संगठन व साहस, उत्पादन का पैमाना, जनसंख्या के सिद्धांत.	15	
4	उत्पादन फलन व प्रतिफल के नियम, पैमाने का प्रतिफल, समोत्पाद वक्र विश्लेषण, बाजार एवं उसका वर्गीकरण, लागत का सिद्धांत व आगम की अवधारणा	15	
5	पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण व फर्म का सामू, एकाधिकारकीमत व उत्पादन निर्धारण एवं एकाधिकार नियंत्रण, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद, अपूर्ण एवं एकाधिकृत प्रतियोगि कीमत निर्धारण	15	
6	लगानअवधारणा, रिकार्डों का लगान सिद्धांत, लगान का आधुनिक सिद्धांत, आभास लगान, मजदूरी अवधारणा, नगद व असल मजदूरी, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, ब्याज अवधारणा एवं ब्याज के सिद्धांत, लाभप्रकृति अवधारणा व लाभ के सिद्धांत.	15	
सार बिंदु (कीवर्ड): अर्थशास्त्र, अध्ययन की रीतियां, मांग की कीमत, उत्पत्ति के साधन, लगान, ब्याज			


 (PROF. PAVAN MISHRA)

भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन				
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:				
स.क्र	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	प्रकाशन स्थल
1.	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,	भोपाल की पुस्तक।		
2.	सिन्हा, त्यागी	व्यवसायिक अर्थशास्त्र	द्विमलया पब्लि नागपुर	
3.	सिन्हा डॉविंसी	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	साहित्य भवन पब्लिकेशन	आगरा
4.	मिश्र डॉजेपी	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	साहित्य भवन पब्लिकेशन	आगरा
5.	Singh Dr.S.K.	Business Economics	Sahitya Bhawan Publication	Agra
6.	Bhatiya H.L.	Micro Economics	Modern Publisher	New Delhi
7.	Sinha Dr. V.C. & Dr. Pushpa	Business Economics	SBPD Publication	Agra
2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक https://sda24.com/bcom-business-economics-notes/ https://dreamlife24.com/bcom-1st- https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/BCM-103pdf https://www.hindinotes.org https://www.freebookcentre.net https://www.geektonight.com/business-economics-notes-pdf/				
भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:				
अनुशंसितसतत मूल्यांकन विधियां: अधिकतम अंक: 100 सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 75				
आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट (वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय) असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	15 10 कुल अंक :25		
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 कुल अंक 75		


 (PROF. PAVAN MISHRA)


Part A introduction

Programme : Certificate Class:B.COM.1 st Year session 2021-22		
Subject:		Commerce
1	CourseCode	C1-COMC1T
2	Course Title	Business Economics
3	Course Type	General Elective
4	Pre-requisite	Not required open for all
5	Course Learning Outcomes	<p>Upon successful completion of the course a student will be able to</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Understand how households (demand) and businesses (supply) interact in various market structures to determine price and quantity of a good produced. 2. Understand the links between household behavior and the economic models of demand. 3. Represent demand, in graphical form, including the downward slope of the demand curve and what shifts the demand curve. 4. Understand the links between production costs and the economic models of supply. 5. Understand the concept of Pricing 6. Analyze operations of markets under varying competitive conditions
6	Credit Value	6
7	Total Marks	Max marks : 25+75 Minimum Passing Marks 33

Part B: content of the course

Total No. of Lectures (in hours per week)- 3, Total lectures: 90		
unit	topic	No. of lectures
1	Historical background of economics in India with special reference to Kautilya, Definition of Economics, Concept of Micro and Macro Economics, Method of Economic study, Economics Law and their nature, Significance of Economics, Basic problems of Economics	15
2	Elasticity of Demand, Concept and measurement of Elasticity of Demand, Price, Income and cross elasticity, Average Revenue, Marginal Revenue and Elasticity of Demand, Determination of Elasticity of Demand, Importance of Elasticity of Demand,	15
3	Factors of Production- Land, Labour, Division of labour, Efficiency of Labour, Capital, Organisation and Enterprises, The scale of production, Theories of Population.	15
4	Production function and Law of returns, Return of scale, Equal product curve analysis, Market and their classification, Theory of cost and concept of revenue.	15
5	Price determination under perfect competition and Equilibrium of the firm, Monopoly-price and output determination and monopoly control, Price determination under monopoly, Imperfect and monopolistic competition-price determination.	15
6	Rent- concept, Ricardian and modern theories of Rent, Quasi Rent, Wages-concept, nominal and real wages, theories of wage determination; Profit-Nature, concept and Theories of profit.	15

Keywords/Tags: micro economics, macro economics, Production, perfect competition, Rent


 (PROF. PAVAN MISHRA)


Part C learning Resources

- 1 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल की पुस्तक।
- 2 Kennedy John Fundamentals of Business Economics Himalaya Pub.Nagpur
- 3 Singh Dr.S.K. Business Economics Sahitya Bhawan Publication Agra
- 4 Bhatiya H.L. Micro Economics Modern Publisher New Delhi
- 5 Sinha Dr. V.C. & Dr. Pushpa Business Economics SBPD Publication Agra
- 6 मिश्र डॉ.जे.पी. व्यावसायिक अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन

Suggestive digital platforms, web links:

1. [https://www.icsi.edu/media/website/Business%20Economics%20\(FndProg\).pdf](https://www.icsi.edu/media/website/Business%20Economics%20(FndProg).pdf)
2. <http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bba/bba-103.pdf>
3. <https://old.mu.ac.in/wp-content/uploads/2020/01/FYBCOM-BUSSINES-ECO-I-Eng.pdf>
4. <http://elibrary.vssdcollege.ac.in/web/data/books-com-sc/bcom1/BUSINESS%20ECONOMICS.pdf>

भाग द -अनुशासित मूल्यांकन विधियाँ:		
अनुशासित सतत मूल्यांकन विधियाँ: अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	मन्दात टेस्ट (वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय) असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	15 10 कुल अंक :25
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 कुल अंक 75


(PROF. PAVAN MISHRA)

